



# झारखण्ड गजट

## असाधारण अंक

### झारखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित

---

20 फाल्गुन, 1940 (श०)

संख्या- 211 राँची, सोमवार,

11 मार्च, 2019 (ई०)

---

#### कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग।

-----  
आदेश

21 फरवरी, 2019

**आदेश सं०-5/आरोप -1-106/2018 का०-1680--** श्री सिद्धार्थ शंकर चौधरी, झा०प्र०से० (कोटि क्रमांक-841/03), तत्कालीन अंचल अधिकारी, देवघर को माननीय विशेष न्यायाधीश, सी०बी०आई० धनबाद द्वारा दिनांक 10.08.2018 को न्यायिक हिरासत में जेल भेजे जाने के आलोक में विभागीय आदेश सं०-7541, दिनांक-08.10.2018 द्वारा झारखण्ड सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2016 के नियम-9(2)(क) के तहत न्यायिक हिरासत में भेजे जाने की तिथि दिनांक 10.08.2018 के प्रभाव से अगले आदेश तक निलंबित किया गया ।

2. श्री चौधरी द्वारा न्यायिक हिरासत से मुक्त होने के पश्चात् दिनांक-29.10.2018 को विभाग में योगदान समर्पित किया है, जिसके आलोक में झारखण्ड सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2016 के नियम-9(3)(i) के तहत श्री चौधरी द्वारा योगदान दिये जाने की तिथि दिनांक-29.10.2018 के प्रभाव से इनका योगदान स्वीकृत किया गया है तथा उक्त नियमावली के नियम-9(1)(क) एवं (ग) के तहत योगदान की तिथि 29.10.2018 के प्रभाव से अगले आदेश तक

पुनः विभागीय आदेश सं०-8501, दिनांक 26.11.2018 द्वारा निलंबित किया गया तथा इनका मुख्यालय आयुक्त का कार्यालय, दक्षिणी छोटानागपुर प्रमंडल, राँची निर्धारित किया गया।

3. अतः समीक्षोपरांत, श्री सिद्धार्थ शंकर चौधरी, झा०प्र०से०, तत्कालीन अंचल अधिकारी, देवघर, सम्प्रति-निलंबित को निलम्बन से मुक्त किया जाता है।

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से,

अशोक कुमार खेतान,  
सरकार के संयुक्त सचिव।

-----